



Faizane Yasin Sharif (Hindi)



फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़

मअ

दुआए निस्फ़े शा 'बानुल मुअज़्ज़म



مكتبة
الاسلام
(موسساتي)

MC 1286



(फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़)

येह रिसाला (फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़)

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में पेश किया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त् में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुतुलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा,

अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409

E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) ।
(तاريخ دمشق لابن عساکر ج ٥١ ص ١٣٨ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मु-तवज्जेह हों

किताब की त्बाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक-त-बतुल मदीना** से रुजूअ फ़रमाइये ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 آمَنَّا بِعَدْوِ اللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़

मअ दुआए निस्फ़े शा 'बानुल मुअज़्ज़म

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

ख़ा-तमुल मु-सलीन, रहमतुल्लिल
 अ-लमीन, शफ़ीज़ल मुज़्ज़िबीन, अनीसुल ग़रीबीन,
 सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल अ-लमीन, जनाबे
 सादिको अमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने दिल
 नशीन है : “जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा
 तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फ़िरिश्ते उस के लिये
 इस्तिफ़ार (या'नी दुआए मग़िफ़रत) करते रहेंगे।”

(الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج ١ ص ٤٩٧ حديث ١٨٣٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

सूरए यासीन शरीफ़ के फ़ज़ाइल

﴿1﴾ हज़रते सय्यिदुना मा'क़िल बिन यसार رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से
 रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार,
 शफ़ीए रोज़े शुमार, दो अलम के मालिको मुख्तार, हबीबे
 परवर दगार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : सूरए यासीन
 कुरआन का दिल है जो इसे अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ की रिज़ा

और आख़िरत की बेहतरी के लिये पढ़ेगा उस की मग़िफ़रत कर दी जाएगी ।

(السُّنَنُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ج ٧ ص ٢٨٦ حديث ٢٠٣٢٢ ملقطاً)

﴿2﴾ हज़रते सय्यिदुना अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरआन का दिल सूरए यासीन है और जो एक मर्तबा सूरए यासीन पढ़ेगा अल्लाह तआला उस के लिये दस मर्तबा कुरआन पढ़ने का सवाब लिखेगा । (سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ ج ٤ ص ٤٠٦ حديث ٢٨٩٦)

﴿3﴾ हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है कि नबिय्ये अकरम, नूरे मुजस्सम, सरकारे दो आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : मेरी ख़्वाहिश है कि सूरए यासीन मेरी उम्मत के हर इन्सान के दिल में हो ।

(اتحاف الخيرة المهرة ج ٨ ص ١٨٢ حديث ٧٨٦٨)

﴿4﴾ हज़रते सय्यिदुना अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि हुजूरे अकरम, रसूले मुहूतशम, शाहे बनी आदम ने फ़रमाया : जो शख्स हमेशा हर रात सूरए यासीन की तिलावत करता रहा फिर मर गया तो वोह शहीद मरेगा । (المعجم الاوسط للطبراني ج ٥ ص ١٨٨ حديث ٧٠١٨)

﴿5﴾ हज़रते सय्यिदुना अता बिन अबू रबाह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, सुरुरे

क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जो शख्स दिन की इब्तिदा में सूरए यासीन की तिलावत करेगा, उस की हाजात पूरी कर दी जाएंगी ।

(سنن الدارمی ج ۲ ص ۵۴۹ حدیث ۳۴۱۸)

﴿6﴾ हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا फ़रमाते हैं : जो शख्स ब वक़्ते सुब्ह सूरए यासीन की तिलावत करे उसे शाम तक उस दिन की आसानी अत्ता की गई और जिस शख्स ने रात की इब्तिदा में इस की तिलावत की उसे सुब्ह तक उस रात की आसानी दी गई ।

(سنن الدارمی ج ۲ ص ۵۴۹ حدیث ۳۴۱۹)

﴿7﴾ हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है फ़रमाते हैं : हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक सुब्ह के वक़्त सूरए यासीन की तिलावत फ़रमाया करते थे ।

(المعجم الاوسط للطبرانی ج ۳ ص ۷۳ حدیث ۳۹۰۳)

﴿8﴾ हज़रते सय्यिदुना अबू क़िलाबा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है, वोह फ़रमाते हैं : जिस ने सूरए यासीन की तिलावत की उस की मरिफ़रत हो जाएगी, जिस ने भूक के वक़्त पढ़ी वोह सैर हो जाएगा, जो रास्ता भूल जाने के वक़्त पढ़े उसे रास्ता मिल जाएगा, जो गुमशुदा चीज़ के लिये पढ़े उसे पा लेगा और जिस ने खाने के वक़्त उस के

कम होने की हालत में तिलावत की तो वोह उसे **किफ़ायत** करेगा, जिस ने किसी मरने वाले के पास इस की तिलावत की उस पर **नरमी** की जाएगी, जिस ने किसी ऐसी औरत के पास इस की तिलावत की जिस पर बच्चे की विलादत तंग हो उस पर **आसानी** होगी और जिस ने इस की तिलावत की गोया कि उस ने **ग्यारह मर्तबा** कुरआने पाक की तिलावत की और हर चीज़ के लिये दिल है और कुरआन का दिल **सूरए यासीन** है ।

(شعب الایمان ج ۲ ص ۴۸۱ حدیث ۴۶۷ ملتقطاً)

﴿9﴾ **हज़रते सय्यिदुना अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन अली** **رضی اللہ تعالیٰ عنہ** से रिवायत है फ़रमाते हैं : जो शख्स अपने दिल में **सख़्ती** पाए तो वोह एक पियाले में जा'फ़रान से "**لیس • وَالْقُرْآنُ الْحَکِیْمُ •**" लिखे फिर उसे पी जाए ।
(उस का दिल नर्म होगा)

(شعب الایمان ج ۲ ص ۴۸۲ حدیث ۴۶۸)

﴿10﴾ **हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा** **رضی اللہ تعالیٰ عنہ** से मरवी है कि **अल्लाह** **عزّوجلّ** के **महबूब**, **दानाए गुयूब**, **मुनज़ज़हुन अनिल उयूब** **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : जिस ने **अल्लाह तआला** की रिज़ा पाने के लिये किसी भी शब में **सूरए यासीन** की तिलावत की तो उस की **मग़िफ़रत** कर दी जाएगी । (حلیة الاولیاء ج ۲ ص ۱۸۱ حدیث ۱۸۰۹)

﴿اباها ۸۳﴾ ﴿سورة يس ۳۶﴾ ﴿سورة مريم ۲۱﴾ ﴿سورة عاها ۵﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِیْنَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵ لِتُنذِرَ قَوْمًا

مَّا اُنذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهٰی اِلٰی

الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ

بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا ۹ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَاَعْشٰی لَهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ۱۰ وَسَوَآءٌ

عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ۝۱۰ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِعَفْوَةٍ

وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ ۝۱۱ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ

شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝۱۲ وَ

أَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ إِذْ

جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝۱۳ إِذْ أُرْسِلْنَا إِلَيْهِمْ

اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۝۱۴ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا

بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۗ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا

إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا

الْبَدْعُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطِّيرُنَا بِكُمْ

لَعْنٍ لَّمْ تَنْتَهُوا النَّزْجُ بِكُمْ وَلَيْسَ بِنَا

عَذَابٌ إِلَيْكُمْ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَافَ بِكُمْ مَعَكُمْ

ذِكْرُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ

مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ

يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا

يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِي

لَا أَعْبُدُ الذِّمِّي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

عَا تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ

بَصُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
 يُنْقِذُونِ ۚ (۲۲) إِنِّي إِذْ لَأَنفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ۝ (۲۳)
 إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ۗ (۲۴) قِيلَ
 ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلِيَّت قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ ۗ (۲۵) بِهَا عَفْرَأِي رَبِّيٰ وَجَعَلَنِي مِنَ
 الْمَكْرُمِينَ ۝ (۲۶) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ
 بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا
 مُنْزِلِينَ ۝ (۲۷) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
 فَإِذَا هُمْ خِدْلُونَ ۝ (۲۸) يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ
 مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ۝ (۲۹) أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَ

إِنْ كُلُّ لَمَامٍ جِئْتُمْ بِهِ لَمَّا جِئْتُمْ بِهِ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَيُّ

لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۗ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا

مِنْهَا حَبًّا فِيهَا يَا كَلْبُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا

جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا

مِنَ الْعُيُونِ ۗ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۗ وَمَا

عَمِلْتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا تَسْلُفًا ۗ سُبْحَانَ

الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

وَأَيُّ لَّهُمُ اللَّيْلُ ۗ نَسَلَخْنَا مِنْهُ النَّهَارَ فَذَا هُمْ

مُظْلِمُونَ ۗ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ

٢
٣٠
١

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ

قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ

الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ

تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَ

كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنْ اَنَّا حَمَلْنَا

ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمُسْحُوْنَ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ

مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَأْ نَعْرِفُهُمْ

فَلَا صَرِيْحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا

رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا

قِيْلَ لَهُمْ اَتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ اٰيَةٍ

مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٣٦﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَطْعَمَ

مَنْ لَّوِيْشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۗ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ

الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا

يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ بِنَارٍ هَذَا مَا

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ

لَدَيْنَا مَحْضُرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ

شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾

هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَسْرَابِ

مُتَّكِنُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا

يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

وَأَمَّا ذُو الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ

أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يُبْنِي أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنَّ

اعْبُدُونِي ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ

أَضَلَّ مِنْكُمْ جِثًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا

تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ

تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ

تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ

نَشَاءُ لَسَخَطْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ تُعَذِّبْهُ نُغِّسْهُ

فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ

الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّ
 قُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَّ
 يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا
 أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئِنَا أَنْعَامًا
 فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ﴿٢١﴾ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فِئَهَا
 رَاكِبُهُمْ وَمنَهَا يَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا
 مَنَافِعُ وَمَسَآرِبٌ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٤﴾ لَا
 يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٢٥﴾
 فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
 يُعْلِنُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ

نُطْفَةٍ فَاذًا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا
 مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ
 هِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ
 مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ
 لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنْتُمْ
 مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
 مِثْلَهُمْ ۗ بَلَىٰ ۗ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا
 أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
 كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

मगरिब के बा'द छ नवाफ़िल

मा'मूलाते औलियाए किराम رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَام से है कि मगरिब के फ़र्ज़ व सुन्नत वगैरा के बा'द छ रकअत नफ़ल दो दो रकअत कर के अदा किये जाएं। पहली दो रकअतों से पहले येह निय्यत कीजिये : “या अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ इन दो रकअतों की ब-र-कत से मुझे दराज़िये उम्र बिलखैर अता फ़रमा।” दूसरी दो रकअतों में येह निय्यत फ़रमाइये : “या अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ इन दो रकअतों की ब-र-कत से बलाओं से मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा।” तीसरी दो रकअतों के लिये येह निय्यत कीजिये : “या अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ इन दो रकअतों की ब-र-कत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर।” इन 6 रकअतों में सू-रतुल फ़ातिहा के बा'द जो चाहें वोह सूरतें पढ़ सकते हैं, बेहतर येह है कि हर रकअत में सू-रतुल फ़ातिहा के बा'द तीन तीन बार सू-रतुल इक्नास पढ़ लीजिये। हर दो रकअत के बा'द इक्कीस²¹ बार قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد (पूरी सूरत) या एक बार सूराए यासीन शरीफ़ पढ़िये बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिये। येह भी हो सकता है कि कोई एक इस्लामी भाई बुलन्द आवाज़ से यासीन शरीफ़ पढ़ें और दूसरे ख़ामोशी से ख़ूब कान लगा कर सुनें। इस में येह ख़याल रहे कि दूसरा इस दौरान ज़बान से यासीन शरीफ़ बल्कि कुछ भी न पढ़े और येह मस्अला ख़ूब याद रखिये कि जब कुरआने करीम बुलन्द आवाज़ से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिये हाज़िर हैं उन पर फ़र्ज़ ऐन है कि चुपचाप ख़ूब कान लगा कर सुनें। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ रात शुरूअ होते ही सवाब का अम्बार लग जाएगा। हर बार यासीन शरीफ़ के बा'द “दुआए निस्फ़े शा'बान” भी पढ़िये।

दुआए निसफ़े शा'बानुल मुअज़्ज़म

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَقْرَبَى كَمَا نَزَّهَ بِأَلَمِهِ مِنَ الْعَبْثِ وَالنَّجَسِ وَالرَّجْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ يَا ذَا السَّنِّ وَلَا يَسُنُّ عَلَيْهِ ط يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط
 يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ط ظَهَرَ اللَّاحِظِينَ ط
 وَجَارِ الْمُسْتَجِيرِينَ ط وَأَمَانُ الْخَائِفِينَ ط اللَّهُمَّ إِنَّ
 كُنْتُ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا
 أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ
 بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحَرْمَانِي وَطَرْدِي وَأَقْتِنَارِي رُنُوقًا ط
 وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْرُوقًا مَوْفَقًا
 لِلْخَيْرَاتِ ط فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ
 الْمُنَزَّلِ ط عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ط ﴿يَسْأَلُونَ اللَّهَ مَا
 يَشَاءُ وَيُنْسِيْتُ ط وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٦﴾﴾ إِلَهِي

بِالتَّجَلَّى الْأَعْظَمِ ط فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ

الْبُكْرَمِ ط الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ ط أَنْ

تُكْشَفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ ط

وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ط وَصَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ ط

○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ऐ अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ! ऐ एहसान करने वाले कि जिस पर एहसान नहीं किया जाता! ऐ बड़ी शानो शौकत वाले! ऐ फज़्लो इन्आम वाले! तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं। तू परेशान हालां को मददगार, पनाह मांगने वालों को पनाह और खौफ़जदों को अमान देने वाला है। ऐ अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ! अगर तू अपने यहां उम्मुल किताब (या'नी लौहे महफूज़) में मुझे शकी (या'नी बद बख़्त), महरूम, धुत्कारा हुवा और रिज़्क में तंगी दिया हुवा लिख चुका हो तो ऐ अल्लाह عَزَّ وَजَلَّ! अपने फज़ल से मेरी बद बख़्ती, महरूमि, ज़िल्लत और रिज़्क की तंगी को मिटा दे और अपने पास उम्मुल किताब में मुझे खुश बख़्त, (कुशादा) रिज़्क दिया हुवा और भलाइयों की तौफ़ीक़ दिया हुवा सब्त (तहरीर) फ़रमा दे, कि तू ने ही तेरी

नाज़िल की हुई किताब में तेरे ही भेजे हुए नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ज़बाने फैज़ तरजुमान पर फ़रमाया और तेरा (येह) फ़रमाना हक़ है : “**तर-ज-मए कञ्जुल ईमान : अल्लाह** जो चाहे मिटाता है और साबित करता है और अस्ल लिखा हुवा उसी के पास है।” (अ.र. १३, १४) खुदाया عَزَّ وَجَلَّ तजल्लिये आ 'जम के वसीले से जो निस्फ़े शा 'बानुल मुकर्रम की रात (या'नी शबे बराअत) में है कि जिस में बांट दिया जाता है हर हिक्मत वाला काम और अटल कर दिया जाता है। (या अल्लाह!) आफ़तों को हम से दूर फ़रमा कि जिन्हें हम जानते और नहीं भी जानते जब कि तू उन्हें सब से ज़ियादा जानने वाला है। बेशक तू सब से बढ़ कर अज़ीज़ और इज़्ज़त वाला है। अल्लाह तआला हमारे सरदार **मुहम्मद** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर और आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के आल व अस्हाब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ पर दुरूदो सलाम भेजे। सब ख़ूबियां सब जहानों के पालने वाले अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के लिये हैं।

शुमातत की ता'रीफ़

दूसरों की तकलीफ़ों और मुसीबतों पर खुशी का इज़हार करने को **शुमातत** कहते हैं।

(حديقة نديه شرح طريقه مصديه ج ۱ ص ۱۲۱)

चुगली की ता'रीफ़

किसी की बात ज़रर (या'नी नुक़सान) पहुंचाने के इरादे से दूसरों को पहुंचाना **चुगली** है।

(عمدة القارى ج ۲ ص ۵۹۴ تحت الحديث ۲۱۶ دار الفكر بيروت)

ماخذ ومراجع

نام کتاب	مصنف	مطبوعه
سنن الترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۲ھ
المسند للامام احمد	امام احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۲ھ
شعب الایمان	امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی بن عقیق، متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
المعجم الاوسط	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن الدارمی	امام حافظ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، متوفی ۲۵۵ھ	دار الکتب العربیہ، بیروت ۱۴۰۷ھ
حلیۃ الاولیاء	حافظ ابو یوسف احمد بن عبداللہ اشعثی شافعی، متوفی ۲۴۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
اتحاف الخیرۃ المہرۃ	امام احمد بن ابی بکر البوصیری، متوفی ۸۴۰ھ	مکتبۃ الرشیدیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
عمدۃ القاری	امام بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ

مجلد سے اہل مدینہ میں (شو'بہ تخریج)

2 ربيع اول 1433 هـ. / 25-02-2012

शिव्वा की ता'रीफ

मुसीबत के वक़्त वावेली करने और सब्र का दामन
हाथ से छोड़ देने को शिव्वा कहते हैं ।

(حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ، ج ۲، ص ۹۸)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या

(दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَلَّذِيْنَ لَمْ يَأْتِكُمْ مِنْ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِشِرَاكِهِ الْاَخْمَنِ الرَّجِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ﷻ तबदीये कुरआने सुन्नत की आलमगीर गैर शिपासी तद्दीक वा खते इस्लामी के महके महके म-दनी माहौल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा रात इस की नवाज के बाद आप के सहर में होने वाले दाँवो इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों परे इतिहास में रिज़ाए इसाही के लिये अच्छी अच्छी निपटतों के साथ खती रत मुज़ारने की म-दनी इस्तिहाद है। अतिशयने रमल के म-दनी क़ाफ़िलतों में ब निपटते सवाब सुन्नतों की तरबिप्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िके मदीना के ज़रीए म-दनी इन्शामाल का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इतिहासई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्न करवाने का माँमूल बना लीजिये, **اِنَّ قِيَامَ اللّٰهِ تَرَوٰهُ** इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, मुसल्लों से नफ़रत करने और इँमान की डिफ़ाज़त के लिये कुदने का ज़ेह्न बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेह्न बनाए कि "मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोको की इस्लाह की कोशिश करनी है **اِنَّ قِيَامَ اللّٰهِ تَرَوٰهُ**" अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये "म-दनी इन्शामाल" पर अमल और सारी दुनिया के लोको की इस्लाह की कोशिश के लिये "म-दनी क़ाफ़िलतों" में सफ़र करता है। **اِنَّ قِيَامَ اللّٰهِ تَرَوٰهُ**

मक-त-वतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
 देहली : 421, मरियम महल, जूँ बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560
 नागपुर : गुटेब रवाज मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपुर : (M) 09373110621
 अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़राइद दौरेन मस्जिद, नाल बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385
 हैदराबाद : चानी की टंकी, मुसुल पुरा, हैदराबाद फ़ोन : 040-24572786
 हुबली : A.J. मुसोल बोमलेथ, A.J. मुसोल रोड, ओलेक हुबली ब्रीज के पास, हुबली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

मक-त-वतुल मदीना

रा'क़े इस्लामी



मिलेक्ट्रेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा अहमदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया
 Mo.091 93271 68200 E-mail:maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net